

आजादी इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। पशु-पक्षी भी गुलाम नहीं रहना चाहते। गुलाम होकर इंसान मन और शरीर से कमजोर हो जाता है। उसकी फैसला करने की ताकत नहीं रहती। गुलामी से मिलने वाले सारे आराम छोड़कर इंसान आजादी की तकलीफ सहने को तैयार हो जाता है। गुलामों की अपनी पहचान नहीं रहती। उसकी अच्छाइयों की कीमत नहीं होती। उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। इसलिए गुलामी की जिंदगी जीने वाले हमेशा से आज़ाद होने के लिए लड़ते आ रहे हैं।

प्रश्न 1 इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है ?

गुलामी

नौकरी

आजादी

प्रश्न 2 कौन गुलाम नहीं रहना चाहते ?

बच्चे

पशु पक्षी

पेड़ पौधे

प्रश्न 3 इंसान कब कमजोर हो जाता है ?

गुलाम होकर

मालिक बनकर

आजाद होकर

प्रश्न 4 गुलामों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है ?

राजा जैसा

नवाबों जैसा

जानवरों जैसा

प्रश्न 5 'पक्षी' कौन सी संज्ञा है ?

व्यक्तिवाचक संज्ञा

जातिवाचक संज्ञा

भाववाचक संज्ञा